

श्री एस.आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री परमानन्द पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल निर्देशन में थाना कटरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई ।

दिनांक 28.06.21 की रात्रि श्री प्रवीन कुमार सोलंकी, प्रभारी निरीक्षक कटरा के कुशल नेतृत्व में थाना कटरा पुलिस थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने व रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित अपराधी में भ्रमणशील थे, मुखबिर की सूचना पर समय करीब 22.15 बजे लाल पेट्रोल पम्प हाईवे पर तिलहर की तरफ अभियुक्तगण 1- अनुप कुमार पुत्र श्यामाचरण नि0 ग्राम घुसगवा गली न0 1 बाजार थाना निगौही जनपद शाहजहाँपुर को 02 किलो 600 ग्राम गांजा 2-अनबर उर्फ बन्टी पुत्र मोहम्मद अशफाक निवासी मो0 अफरीदी कस्वा व थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर को 02 किलो 500 ग्राम गांजा कुल 5 किलो 100 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना पर मु0अ0सं0 304/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम अनुप कुमार उपरोक्त तथा मु0अ0सं0 305/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम अनबर उर्फ बन्टी उपरोक्त पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कटरा पर विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा । अभियुक्तगण से पूछताछ जारी है । पूछताछ से जो तथ्य प्रकाश में आयेंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

विवरण पूछताछ:-

अभियुक्तगण ने संयुक्त रूप से की गयी पूछताछ में बताया कि हम लोग रिंकू निवासी बिलासपुर से गांजा लाते हैं और गांजे की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर बेच देते हैं । जिससे हमे काफी फायदा होता है । रिंकू हरियाणा से ट्रकों में अवैध शराब झारखंड सप्लाई करता है और उधर से गांजा ले आता है। हम लोग रिंकू से थोक में गांजा खरीदकर पुडिया बनकर फुटकर में बेच देते हैं।

गिरफ्तारी अभियुक्त का विवरण:-

1. अनुप कुमार पुत्र श्यामा चरण नि0 ग्राम घुसगवा 01 न0 गली बाजार थाना निगौही जनपद शाहजहाँपुर
2. अनबर उर्फ बन्टी पुत्र मोहम्मद अशफाक निवासी मो0 अफरीदी कस्वा व थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. 5 किलो 100 ग्राम गांजा
2. एक पल्सर मोटर साइकिल ब्लैक क्लर नं0 UP-30 N-8790
3. दो मोबाइल एक कीपैड वाला तथा एक VIVO 1901 टच स्क्रीन

आपराधिक इतिहास:-

(1) अनुप कुमार पुत्र श्यामा चरण नि0 ग्राम घुसगवा 01 न0 गली बाजार थाना निगौही जनपद शाहजहाँपुर

1. मु0अ0सं0 272/2020 धारा 63/63/72 आबकारी अधिनियम थाना फत्तेगंज पश्चिमी बरेली
2. मु0अ0सं0 304/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कटरा शाहजहाँपुर

(2) अनबर उर्फ बन्टी पुत्र मोहम्मद अशफाक निवासी मो0 अफरीदी कस्वा व थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर

1. मु0अ0सं0 1714/2017 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना तिलहर शाहजहाँपुर
2. मु0अ0सं0 305/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कटरा शाहजहाँपुर
3. मु0अ0सं0 542/2010 धारा 394,411 IPC थाना कटरा
4. मु0अ0सं0 775/2010 धारा 392,411 IPC थाना तिलहर
5. मु0अ0सं0 783/2010 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तिलहर
6. मु0अ0सं0 883/2010 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना तिलहर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रवीन सोलंकी प्रभारी निरीक्षक कटरा जनपद शाहजहाँपुर
2. व0उ0नि0 सन्तोष कुमार थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
3. हे0का0 400 अजयराना थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 1802 नवीन कुमार थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 2045 विकास कुमार थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 1797 रविन्द्र कुमार थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
7. का0 1804 अनुज प्रताप थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
8. रि0का0 बाबर मलिक थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर

